



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खंड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY



सं. 834]

नई दिल्ली, बुधस्वतिवार, नवम्बर 15, 2001/कार्तिक 24, 1923

No. 834]

NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 15, 2001/KARTIKA 24, 1923

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 नवम्बर, 2001

का.आ. 1131(अ).—केन्द्रीय सरकार, विस्फोटक अधिनियम, 1884 (1884 का 4) की धारा 14 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा एनरान ऑयल एंड गैस इंडिया लिमिटेड, प्रथम तल, मिडास, सहर प्लाजा, कोडिविटा, एम वी रोड, अंधेरी (ईस्ट), मुम्बई-400059 को एस आर सी टेक्नॉलॉजी सेंटर, श्लूमबर्गर टेक्नॉलॉजी कॉर्पोरेशन, 110, श्लूमबर्गर ड्राइव, शुगर लैंड, टेक्सास-77478, संयुक्त राज्य अमेरिका से मुम्बई हवाई अड्डे पर निम्नलिखित विस्फोटक सामग्री के आयात के लिए विस्फोटक नियमावली, 1983 (इसे इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 31 के उपनियम (2) के उपबंधों के अनुपालन से छूट देती है, यथा :—

क्रम संख्या	विस्फोटक सामग्री का नाम	यू.एन. संख्या	वर्ग	नेट वेट (कि.ग्रा. में)
1.	चार्लेज, शेल्ड	0441	1.4एस	176.93
2.	कोर्ड, डिटोनेटिंग	0289	1.4डी	4.54

2. उक्त पैराग्राफ 1 में उल्लिखित विस्फोटकों का आयात निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा, नामतः :-

- (क) नागरिक विमानन महानिदेशक और भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण से आवश्यक स्वीकृतियां प्राप्त की जाएंगी और उक्त प्राधिकरणों द्वारा लगाई गई शर्तों, यदि कोई हों, का पालन किया जायेगा ;
- (ख) अन्तरराष्ट्रीय वायु परिवहन एसोसिएशन खतरनाक माल विनियमन, 1996 की धारा-3 में दिये गये वर्गीकरण के प्रभाग 1.4 के ही अनुरूप विस्फोटकों का आयात किया जायेगा ;
- (ग) नियम 31 के उपनियम (2) के अलावा, उक्त नियम में यथा निहित विस्फोटकों के कब्जे, परिवहन, प्रयोग और आयात से संबंधित सुसंगत उपबंधों का पालन किया जायेगा ;
- (घ) उक्त नियम के अधीन लाइसेंसशुदा विस्फोटक सामग्री के वाहनों की पर्याप्त संख्या हवाई अड्डे पर तैयार रखी जायेगी जिससे कि विस्फोटक सामग्री को वायुयान के उतरते ही शीघ्रता से हटाया जा सके ;
- (ङ) वायुयान को विमानपत्तन पर दूरस्थ स्थान पर खड़ा किया जायेगा और विस्फोटकों का वायुयान से अंतरण शुरू होने से पहले महानिदेशक, नागरिक विमानन से परामर्श करके पर्याप्त संख्या में सुरक्षा गार्डों का प्रबंध करके वायुयान और विस्फोटक सामग्री वाहन के चारों ओर कम से कम 500 वर्गमीटर क्षेत्र को घेर लिया जायेगा । उक्त व्यवस्था तब तक बनी रहेगी जब तक कि अन्तरण पूरा नहीं हो जाता और अच्छी तरह से बन्द वाहन उक्त स्थान से रवाना नहीं हो जाता ;
- (च) घिरे हुए क्षेत्र के अन्दर कोई धुम्रपान अथवा खुली बत्ती के उपयोग की अनुमति नहीं होगी ; तथा
- (छ) उपर्युक्त विस्फोटक सामग्री को ले जा रहे वाहन उक्त नियम के अधीन लाइसेंसयुक्त भण्डारण मैगजीन की ओर अग्रसर होंगे और रास्ते में कोई अनुचित विलम्ब नहीं किया जायेगा और विस्फोटकों के परिवहन के दौरान उक्त नियमों के सभी उपबंधों और स्थानीय यातायात नियमों और नगर पालिका के विनियमों यदि कोई हो, का पालन किया जायेगा ।

[फा. सं. 2(2)/2001-विस्फो.]

अ. ए. अहमद, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Industrial Policy and Promotion)

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th November, 2001

S.O. 1131(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 14 of the Explosives Act, 1884 (4 of 1884), the Central Government hereby exempts the Enron Oil

and Gas India Limited, 1st Floor, Midas, Sahar Plaza, Kondivita, M.V. Road, Andheri (East), Mumbai – 400 059, from the provisions of sub-rule (2) of rule 31 of the Explosives Rules, 1983 (hereinafter referred to as the said rules), for import of the following explosives from the SRC Technology Center, Schlumberger Technology Corporation, 110, Schlumberger Drive, Sugar Land, Texas -77478, United States of America, at Mumbai airport, namely:-

<u>Serial number</u>	<u>Name of the explosive</u>	<u>U.N. number</u>	<u>Class</u>	<u>Net weight (in Kgs.)</u>
1.	Charges, Shaped	0441	1.4S	176.93
2.	Cord, Detonating	0289	1.4D	4.54

2. The explosives mentioned in paragraph 1 above shall be imported subject to the following conditions, namely:-

- (a) necessary clearances are obtained from the Director General of Civil Aviation and the Airports Authority of India and conditions, if any, imposed by them be complied with;
- (b) explosives conforming only to Division 1.4 of the classification given in section 3 of the International Air Transport Association Dangerous Goods Regulations, 1996 shall be imported;
- (c) relevant provisions relating to the possession, transport, use and import of explosives, as contained in the said rules, except sub-rule(2) of rule 31, shall be complied with;
- (d) adequate number of explosives vans, licensed under the said rules, shall be kept ready at the airport so that the explosives can be removed expeditiously from the aircraft after its landing;
- (e) aircraft shall be parked at a remote place at the airport and an area of at least five hundred square metres around

the aircraft and the explosives van shall be cordoned off by providing adequate number of security guards in consultation with the Director General of Civil Aviation before the transfer of explosives from aircraft to van begins. The arrangement shall continue till such transfer is completed and the van is duly locked and leaves the site;

- (f) smoking or use of naked light shall not be permitted within the cordoned area; and
- (g) vans carrying the explosives shall proceed to the storage magazines licensed under the said rules and no undue delay shall be made on the way and all provisions of the said rules and local traffic rules and municipal regulations, if any, shall be complied with during the transportation of the explosives.

[F. No. 2(2)/2001-Expl.]

A. E. AHMAD, Jt. Secy.